

प्रेस विज्ञप्ति/ प्रकाशनार्थ
08 मार्च , 2021 गोरखपुर ।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुरु श्री गोरखनाथ ब्लड बैंक, गोरखनाथ चिकित्सालय मे एक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ।

रक्तदान द्वारा जीवनदान देने वाली महिलाओ के अदम्य साहस को हृदय से नमन करते हुए ब्लड बैंक प्रभारी डॉ अवधेश अग्रवाल ने बताया की आज की जागरूक नारी रक्तदान द्वारा मरीजों के प्राणो की रक्षा करते हुये समाज कल्याण मे अपनी अहम् भूमिका का निर्वाहन कर रही है।

“शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि।”

आदि शंकराचार्य विरचित सौंदर्यलहरी की यह आरंभिक पंक्तियाँ कहती हैं कि “शक्ति के बिना शिव , शव है तथा ऐसी परिस्थिति में उनमें स्पंदन-मात्र की सामर्थ्य भी नहीं है।”

परम चेतना को सामर्थ्य और गति सौंपनी वाली यह “शक्ति” भारतीय दर्शन में स्त्री-तत्व का सबसे खूबसूरत प्रतीक है। आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दुनिया के समस्त मंगल की मूल, सभी महिलाओं को अनंत शुभकामनाएँ । आपका होना ही पुरुष तत्व की पूर्णता है। जीवन के सुंदर समतल में पीयूष स्रोत-सी आपकी उपस्थिति को सादर व सप्रेम प्रणाम कर रहा हूँ।

डॉ अग्रवाल ने आगे बताया की नियमित 3 माह के अंतराल पर रक्त दान के बहुत फायदे है जैसे....नये रक्त कोशिकाओ का निर्माण होना मोटापे से बचाव,आयरन लेवल सामान्य रहता है कैंसर से बचाव होता है , हृदय एव लिवर स्वस्थ रहता है ,बेहतर रक्तसंचार होता है , कोलेस्ट्रॉल और BP नियंत्रित रहता है ,स्वस्थ चेकअप हो जाता है इत्यादि...

आज इस अवसर पर नेहा गुप्ता, रूबी गुप्ता, आंचल गुप्ता, अवंतिका शाही, कल्पना, जूही सिंह, दीक्षा, स्वेता, अभिषेक इत्यादि ने रक्तदान किया।

कार्यक्रम मे चिकित्सालय के चिकित्सक , नगर के गणमान्य नागरिक , पत्रकार बंधु इत्यादि उपस्थित रहे।

सभी रक्तदाताओं को ब्लड बैंक द्वारा सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र , की चैन,कॉफी मग आदि दिया गया । वैश्विक महामारी कोविड को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंस , हैण्ड सैनिटाइजेशन तथा मास्क इत्यादि के साथ रक्तदाताओ का चिकित्सीय परिक्षण, हीमोग्लोबिन, बी.पी. पल्स, ब्लड ग्रुप इत्यादि जाँच की गई।